

Action Construction Equipment Ltd.

Corporate & Regd. Office

Dudhola Link Road, Dudhola, Distt. Palwal - 121102, Haryana, India



Date: August 26, 2020

To,
The Manager Listing
BSE Limited
5th Floor, P.J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400001
Scrip Code: 532762

The Manager Listing
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai-400051
CM Quote: ACE

Subject: Submission of Newspaper Advertisements under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulations 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith, copies of the newspaper advertisement published in the *FINANCIAL EXPRESS* (English) and *JANSATTA* (Hindi) on 26th August, 2020 relating to AGM, availability of AGM Notice, Annual Report 2019-20 and manner of e-voting etc.

This is for your information and record please.

Thanking you.

For Action Construction Equipment Limited

Anil Kumar
Company Secretary & Compliance Officer



Corporate Office & Regd. Office : Phone : +91-1275-280111 (50 Lines), Fax : +91-1275-280133, E-mail : works2@ace-cranes.com
Mktg. H.Q.: 4th Floor, Pinnacle, Surajkund, Faridabad, NCR-121009, Phone: +91-129-4550000 (100 Lines), Fax : +91-129-4550022, E-mail: marketing@ace-cranes.com
Customer Care No.: 1800 1800 004 (Toll Free), CIN : L74899HR1995PLC053860

Nothing beats an **ACE**

ACE
ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LIMITED
 CIN: L74899HR1995PLC053860
 Regd. Office: Dughola Link Road, Dughola, Distt. Palwal-121102, Haryana
 Phone: +91-1275-280111 (50 Lines), Fax: +91-1275-280133
 E-mail: cs@ace-cranes.com Website: www.ace-cranes.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS
 Notice is hereby given that:
 1. The Twenty Sixth (26th) Annual General Meeting (AGM) of the Members of Action Construction Equipment Limited ("Company") will be held on **Thursday, September 24, 2020 at 11:30 AM IST** through video conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 and rules made there under and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (Collectively referred to as "relevant circulars") to transact the business as set forth in the Notice calling AGM.

2. Electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report 2019-20 will be sent to only those members whose email-IDs are registered with Company/Depository Participant(s). These documents will also be available on the Company's website www.ace-cranes.com and websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The AGM Notice is also disseminated on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM) i.e. www.evotingindia.com.

3. Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited, Selenium, Plot 31 & 32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032. Members may note that pursuant to the General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 issued by the MCA, the Company has enabled a process for the limited purpose of receiving the Company's annual report and notice for the Annual General Meeting (including remote e-voting instructions) electronically, and Members may temporarily send their email address at cs@ace-cranes.com.

4. **Manner of casting vote(s) through e-voting.**
 (a) Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("e-voting").
 (b) The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for the members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of the AGM.
 (c) The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM.
 (d) The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company/Kfin Technology Private Limited/ Depository Participant(s), may generate login credentials by following the instruction given in the Notes to Notice of AGM.

5. Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instruction for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or e-voting at the AGM.

For Action Construction Equipment Limited
 Sd/-
 Anil Kumar
 Company Secretary

Date: August 25, 2020
 Place: Palwal

Brilliant Portfolios Limited
 Regd. Off: B - 09, 412, ITL Twin Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110088 Ph. No. 011-45059863, CIN: L74899DL1994PLC057507
 Email ID: brilliantportfolios@gmail.com, Website: www.brilliantportfolios.com

In view of the continuing Covid-19 Pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 & circular dated April 13th 2020 respectively read with SEBI Circular No. SEBIHO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, has permitted the holding of Annual General Meeting through Video Conferencing ("VC") or Other Audio-Visual Means ("OAVM") thereby dispensing with the requirement of physical attendance of the members at the Annual General Meeting and accordingly, the 26th Annual General Meeting ("AGM") of Brilliant Portfolios Limited ("the Company") will be held on Sunday, 27th September, 2020 at 11:30 A.M. through VC or OAVM in compliance with these Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to transact the business set forth in the Notice convening the 26th AGM of the Company.

As per aforesaid circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for FY 2019-2020 has to be sent only by electronic mode to those Members whose E-mail Id are already registered with the Company/ Depositories. The said Notice and Annual Report will also be available on Company's website at www.brilliantportfolios.com and on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com.

Manner of registering/ updating email addresses:
 (i) Members holding shares in physical mode are requested to send the following details for registration of their email id- Folio number, Name of the shareholder, Mobile No., Email id, scanned copy of the share certificate (Front and Back), Self attested scanned copy of PAN Card, Self attested scanned copy of Aadhar Card by email to the Registrar and Transfer Agents of the Company, MAS Services Limited at info@masserv.com.
 (ii) Members holding shares in electronic mode are requested to register/update their email ids with their respective Depository Participant (DP) for receiving all communications from the Company electronically.
Manner of casting vote through e-voting:
 (i) Members will have an opportunity to cast their vote remotely on the business set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting system i.e. e-voting from a place other than the venue of AGM as well as e-voting during the proceedings of AGM.
 (ii) The login credentials for casting the votes through e-voting shall be made available to the Members through email after they successfully register their email addresses in the manner provided above.
 (iii) Detail instructions to Members for casting vote through remote e-voting shall be given in the Notice of the AGM.

This Notice is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company in compliance with the applicable circulars issued by the MCA and SEBI.

For Brilliant Portfolios Limited
 Ashish
 Company Secretary

Place: Delhi
 Date: 25.08.2020

TITAN SECURITIES LIMITED
 Regd. Office: A-2/3, Third Floor, Laxa Tower, Azadpur Commercial Complex, Delhi-110033
 CIN: L67190DL1993PLC052050,
 Ph.: 011-27674615
 Email: titan.securities@yahoo.com | Website: www.titansecuritieslimited.com

NOTICE OF 28TH AGM OF TITAN SECURITIES LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE OR OTHER AUDIO-VISUAL MEANS AND REMOTE E-VOTING FACILITY

This is to inform that in view of the outbreak of the Covid-19 pandemic, the 28th Annual General Meeting (AGM/Meeting) of Titan Securities Limited ("the Company") will be convened through Video Conferencing ("VC") facility / other audio visual means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and other applicable Circulars issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"). The 28th AGM of the Members of the Company will be held at 11:30 A.M. (IST) on Friday, 25th September, 2020 through VC facility / OAVM provided by the CDSL to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM. The e-copy of the Integrated Annual Report of the Company for the Financial Year 2019-2020 along with the Notice of the AGM, Financial Statements and other Statutory Reports will be available on the website of the Company at www.titansecuritieslimited.com and on the website of CDSL www.cdslindia.com. Additionally, the Notice of AGM along with the Integrated Annual Report 2019-2020 will also be available on the websites of the stock exchanges on which the securities of the Company are listed i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. Members can attend and participate in the AGM through the VC facility / OAVM ONLY, the details of which will be provided by the Company in the Notice of the Meeting. The Notice of the AGM along with the Integrated Annual Report 2019-2020 will be sent electronically only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company /RTA. Further, no physical copies of the Notice of AGM and Integrated Annual Report will be sent to any Member.

Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to follow the process mentioned below:
For registering their e-mail addresses to receive the Notice of the AGM and Integrated Annual Report electronically and to receive login ID and password for remote e-Voting:

A. Shareholders holding shares in physical form can register their e-mail address with the Company or Registrar and Transfer Agents of the Company, BEATAL Financial & Computer Services Private Limited at beatalrta@gmail.com by providing Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to titan.securities@yahoo.com / beatalrta@gmail.com.

B. Shareholders holding shares in demat form can get their e-mail ID's registered only by contacting their respective Depository Participant(s) (DP's).

The instructions for voting and attending the AGM through VC / OAVM shall also be provided in the Notice of AGM.

For Titan Securities Limited
 Sd/-
 Akansha Sharma
 Company Secretary

Place: Delhi
 Date: 24.08.2020

CAPFIN INDIA LIMITED
 CIN: L74999DL1992PLC048032
 Registered Office: PP-1, Gali No. 10, Industrial Area, Anand Park, New Delhi-110005
 Tel No: 011-28762142 | E-mail: capfinindia@yahoo.co.in
 Website: www.capfinindia.com

In view of the continuing Covid-19 Pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 & circular dated April 13th 2020 permitted the holding of AGM through Video Conferencing or Other Audio-Visual Means (OAVM). In compliance with these Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the upcoming AGM of the Company will be held on 27th September 2020 at 12:00 noon through VC/OAVM.

As per aforesaid circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for FY 2019 - 2020 has to be sent only by electronic mode to those Members whose E-mail Id are already registered with the Company/ Depositories. The Company is also providing e-voting and remote e-voting facility to all its Members similar to earlier practices.

If your email ID is already registered with the Company/ Depository, Notice of AGM along with annual report for FY 2019 - 2020 and login details for e-voting shall be sent to your registered email address. In case you have not registered your email ID with the Company/ Depository, please follow below instructions to register your email ID for obtaining annual report for FY 2019 - 20 and login details for e-voting.

Physical Holding Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, **Indus Portfolio Private Limited** at ip@indusinvest.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN, Self attested scanned copy of PAN Card, AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.

Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. Indus Portfolio Private Limited, G-65, Ball Nagar, New Delhi-110015 alongwith letter mentioning folio no. If not registered already.)

Demat Holding Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP. Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH if declare by company.

The Notice of AGM and Annual Report for FY 2019 - 2020 will also be available on the Company's website www.capfinindia.com and website of BSE Limited at www.bseindia.com. Members attending the meeting through VC / OAVM shall be counted for the purpose of Quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

For & on behalf of Capfin India Limited
 Sd/-
 Rachita Mantry Kabra
 Whole Time Director

Place: New Delhi
 Date: 25/08/2020

JULLUNDUR AUTO SALES CORPORATION LIMITED
 CIN: U34101DL1959PLC003066
 Regd. Office: 2749, Mirza Umrao Street, Behind Minerva Cinema, Kashmere Gate, Delhi - 110006
 Ph. No.: 011-2391932, Email: jmaadminlegal@jmaindia.com

NOTICE OF 72ND ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 72nd Annual General Meeting ("AGM") of the members of Jullundur Auto Sales Corporation Limited will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual means ("OAVM") on Wednesday, the 16th September, 2020 at 11:30 am to transact the Businesses, as set out in the Notice of AGM. The Notice of the Meeting, Annual Report for the financial year ended on 31st March, 2020 and remote e-voting details have been sent in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/RTA/Depository. The date of completion of dispatch of notices to the shareholders through email is August 25, 2020.

In case you have not registered your email ID with the Company/ Depository, please follow below instructions to register your email ID for obtaining annual report for FY 2019-20 and login details for e-voting.

Physical Holding Send a signed request to the Company at jmaadminlegal@jmaindia.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.

Please send your bank detail with original cancelled cheque to the Company at 2749, Mirza Umrao Street, Behind Minerva Cinema, Kashmere Gate, Delhi - 110006 alongwith letter mentioning folio no. If not registered already.

PLEASE REGISTER / UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 09/09/2020

Demat Holding Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP.

Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH if declare by the Company.

PLEASE REGISTER / UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 09/09/2020

The Notice of AGM and Annual Report for FY 2019-2020 are also available at the Company's registered office. Members attending the meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of Quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Notice is hereby given in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time that the Company has offered e-voting facility for transacting all the business by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) through their portal www.evotingindia.com to enable the members to cast their votes electronically. The remote e-voting period commences on Sunday, 13th September, 2020 (09:00 am) and ends on Tuesday, 15th September, 2020 (05:00 pm). No e-voting shall be allowed beyond the said date and time. During this period members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 9th September, 2020, may cast their vote by remote e-voting. Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 9th September, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at jmaadminlegal@jmaindia.com. However, if the members are already registered with CDSL for remote e-voting then they can use their existing user ID and password for casting their vote. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Shri Vijay K. Singhal, Practicing Company Secretary (Membership No. 21089 & CP No. 10385), Proprietor M/s. Vijay K. Singhal & Associates, Company Secretaries, has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process. The detailed procedure for remote e-voting is contained in the letter sent with the Notice of the AGM. Any query/grievance relating to e-voting may be addressed to Shri Virat Sondhi, Director, Jullundur Auto Sales Corporation Limited, 2749, Mirza Umrao Street, Behind Minerva Cinema, Kashmere Gate, Delhi - 110006, Phone: 011-23919323, Email: jmaadminlegal@jmaindia.com. NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 that the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 10th September, 2020 to Wednesday, the 16th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of taking record of the shareholders at the Annual General Meeting and for payment of dividend @ Rs. 5 per share (i.e. 100%) on the Equity Shares of Rs. 5/- each, if declared at the Annual General Meeting. All the shareholders are requested to immediately update their Bank Account No. with 9-digit MICR Code (either Bank Account No. or 9-digit MICR No. or both), if the same has not been updated with the Company or the depository participant, as the case may be.

For Jullundur Auto Sales Corporation Limited
 Sd/-
 Virat Sondhi
 Director
 (DIN: 00092902)

Place: Delhi
 Date: 25.08.2020

RELAXO FOOTWEARS LIMITED
 Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector -3, Rohini, Delhi - 110085, Phones: 91-11-46800600, 46800700, Fax No: 91-11-46800692,
 E-mail: rf@relaxofootwear.com, Website: www.relaxofootwear.com
 CIN No.: L74899DL1984PLC019097

NOTICE OF THE 36TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Relaxo Footwears Limited ("the Company") will be held on Thursday, 24th day of September, 2020 at 10:30 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the business as set out in the notice dated June 6, 2020 of AGM in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), rules made thereunder and read with General circular no. 20/2020 dated May 5, 2020 read with General circular no. 17/2020 dated April 13, 2020 and General circular no. 14/2020 dated April 8, 2020, issued by Ministry of Corporate Affairs and circular no. SEBIHO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (collectively referred to as "circulars").

In compliance with the aforesaid circulars, the Notice convening the AGM along with Annual Report for the Financial Year 2019-20 inter alia comprises of Audited Financial Statements of the Company for the Financial Year ended March 31, 2020, together with the Reports of Board of Directors and Auditors thereon, has been sent on August 21, 2020 through electronic mode to the Members whose email addresses is registered with the Depository Participant(s) / Kfin Technologies Private Limited ("Kfin"), Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") of the Company. The requirement of sending physical copies of the Notice of AGM has been relaxed by the authorities vide the above-mentioned circulars.

The aforesaid documents are also available on the website of the Company at www.relaxofootwear.com and on the websites of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, also the website of RTA at <https://evoting.kfintech.com>. Also, the attendance of the Members (through members logins) attending the e-AGM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The facility for providing proxy is not available since the AGM is conducted through VC/OAVM.

Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM at <https://emeetings.kfintech.com> by using their e-voting login credentials. The Members can join the e-AGM 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with aforesaid circulars, the Company is providing to its members a facility to exercise their right to vote on businesses as set out in notice of AGM by electronic means ("remote e-voting"). Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM ("InstaPoll") and members attending the Meeting will be able to vote at the AGM through InstaPoll. The Company has engaged the services of Kfin to provide remote e-voting and InstaPoll facilities for the AGM. The detailed instructions for remote e-voting / InstaPoll are given in the notice dated June 6, 2020 of the AGM.

Members are requested to note the following:

a) The remote e-voting will commence on Monday, September 21, 2020 at 9:00 A.M. (IST) and will end on Wednesday, September 23, 2020 at 5:00 P.M. (IST). The e-voting module shall be disabled by Kfin for voting thereafter and members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

b) The voting rights of the members (through remote e-voting / InstaPoll) shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on September 17, 2020 ("cut-off date"). A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the Kfin / Depository Participant(s) as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or InstaPoll at the AGM, as the case may be. A person who is not a Member as on the cut-off date, i.e. September 17, 2020 should treat the notice of the AGM for information purpose only.

c) Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of the notice and holds shares as on the cut-off date, i.e. September 17, 2020, may obtain the login id and password by sending a request at evoting@kfintech.com or contact no. 040 - 6716 2222 or call Kfin toll free no. 1800-3454-001 or to the Company at [cs@relaxofootwear.com](https://relaxofootwear.com). The detailed procedure for obtaining user ID and password is also provided in the notice dated June 6, 2020 of the meeting. However if a member is already registered with Kfin for remote e-voting then he/she can use the existing login id and password for casting his/her vote.

d) The Company is providing e-voting during the AGM i.e. InstaPoll which is integrated part of VC/OAVM platform and no separate login is required for the same. Facility to cast vote through InstaPoll will be made available on Video Conferencing screen and will be activated once the InstaPoll is announced at the AGM.

e) A member can opt for only single mode of voting i.e. through Remote e-voting or InstaPoll. If a member casts votes by both modes then voting done through Remote e-voting shall prevail and InstaPoll shall be treated as invalid. The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the Meeting.

f) Members are requested to register their email addresses in respect of shares held in electronic form with their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by clicking at https://ris.kfintech.com/email_registration/ or by writing to the Kfin at their address given in this notice.

g) Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves by logging on to <https://emeetings.kfintech.com> and clicking on the "Speaker Registration" option available on the screen after log in. The Speaker Registration will remain open from September 19, 2020 (9:00 A.M. IST) to September 21, 2020 (5:00 P.M. IST). Only those members who will register themselves as speaker will be allowed to express their views or ask questions at the AGM. The Company reserves the right to restrict the number of questions and number of speakers, depending upon availability of time as appropriate for smooth conduct of the AGM.

Mr. Baldev Singh Kashtwal (FCS No. 3616, C.P. No. 3169), a Practicing Company Secretary, has been appointed by the Board of Directors of the Company as Scrutinizer for scrutinizing the remote e-voting process and InstaPoll process in a fair and transparent manner.

The results of the remote e-voting and InstaPoll at the AGM shall be declared not later than forty eight hours from the conclusion of the meeting. The results of the voting along with the Scrutinizer's Report, will be announced by the Managing Director or any other person duly authorised by the Board, on or before Saturday, September 26, 2020 at the registered office and will also be displayed on the website of the Company at www.relaxofootwear.com and on the websites of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, also on the website of RTA at <https://evoting.kfintech.com>.

For any grievances/ queries/ clarifications relating to voting by electronic means and attending AGM through VC / OAVM, members may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders' and e-voting / VC / OAVM user manual for shareholders', available at the download section of <https://evoting.kfintech.com> and/or Mr. Rajkumar Kale, Manager- Corporate Registry, Unit: Relaxo Footwears Limited, Kfin Technologies Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 or at evoting@kfintech.com or contact no. 040 - 6716 2222 or call Kfin's toll free no. 1800-3454-001 for any further clarifications. The members of the Company can also contact Mr. Vikas Kumar Tak, Company Secretary, Relaxo Footwears Limited, Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi-110085, contact No: 011 - 46800600 and may write an e-mail to cs@relaxofootwear.com.

Book Closure: Notice is further given pursuant to Section 91 of the Act read with Rules framed thereunder and Regulation 42 of Listing Regulations, the register of members and the share transfer books of the Company will remain closed from Friday, September 18, 2020 to Wednesday, September 23, 2020 (both days inclusive) for the purpose of 36th AGM.

By order of the Board
 For Relaxo Footwears Limited
 Sd/-
 Vikas Kumar Tak
 Company Secretary

Date: August 25, 2020
 Place: Delhi

ROYAL INDIA CORPORATION LIMITED
 CIN: L4500MH1984PLC032274,
 Tel No. 022-4341777, Fax No. 022-2827722,
 E-mail: info@riid.com, Website: www.riid.com
 Regd. Off: 62, P. Floor, C Wing, Mittal Tower,
 Narman Point, Mumbai, Maharashtra 400021.

NOTICE
 Notice is hereby given pursuant to Regulations 29 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, September 23, 2020, at 3:00 p.m. inter alia, to consider and take on record, the Unaudited Financial Results along with the Limited Review Report for the quarter ended June 30, 2020. Also, the trading window as per the Clause 4 of Schedule B of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and Company's Code of Conduct for prevention of Insider Trading will remain close with continuation from July 1, 2020 and will re-open 48 hours after declaration of financial results.

The said information may be accessed to on the Company's website at www.riid.com and may also be accessed on the Stock Exchange website at www.bseindia.com.

For Royal India Corporation Limited
 Sd/-
 (Mr. Nitin Gajjar)
 DIN-08184605
 Managing Director

Place: Mumbai
 Date: August 25, 2020

COLUMBUS PREMIER SHOES PRIVATE LIMITED
 CIN: U74899DL1982PTC050378
 Regd. Off.: E-93, Basement Udyog Nagar,
 Rohitak Road, New Delhi-110041

NOTICE
 POSTPONEMENT OF ANNUAL GENERAL MEETING
 Members are hereby informed that, due to the unforeseen & unavoidable circumstances of COVID-19, it has not been possible for the Company to convene the 28th Annual General Meeting of the Company, which was scheduled to be held on **28th Day of August, 2020 at 1.30 P.M.** at H-26, Udyog Nagar, New Delhi-110041.

Accordingly, the Board of Directors of the Company has decided to postpone the said Annual General Meeting, which will be convened on later date as decided by the Board of Directors. Notice and other documents, if any, relevant to the re-convened Meeting will be dispatched / Emailed to Members shortly.

By Order of the Board
 For Columbus Premier Shoes Private Limited
 Sd/-
 Mohan Lal
 (Director)

Place: New Delhi
 Date: 25.08.2020

AGARWAL DUPLEX BOARD MILLS LIMITED
 CIN: L99999DL1984PLC019052
 Regd. Office: 217, Agarwal Prestige Mall,
 Plot No. 2, Community Center, Along
 Road No. 44 Pitampura, Delhi - 110034,
 Phone No: 011-47527700
 Website: www.agarwalduplex.com

NOTICE
 Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 8th September, 2020 at 11:00 A.M. at the registered office of the company inter-alia to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2020 and to consider and approve the proposal of subdivision of equity shares of the company.

For this purpose the trading window for director/officer/designated employees/ Promoter covered under the code of conduct for prevention of Insider Trading pursuant to Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 has been already closed till 48 hours after the conclusion of aforesaid Board Meeting.

Further details of this notice are available on website of the company at www.agarwalduplex.com and also available on the Stock Exchange at www.bseindia.com & www.nseindia.com.

For Agarwal Duplex Board Mills Ltd.
 Sd/-
 (Neeraj Goel)
 Managing Director
 Place: Delhi
 Date: 25.08.2020
 DIN: 00017498

SAMRAT FORGINGS LTD.
 CIN: U28910DL1981PLC034522
 Regd. Office: AGC, First Floor, Sec-15-A,
 Chandigarh-160015, Ph: 0172-2774055
 E-mail: info@samaratforgings.com
 Website: www.samaratforgings.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
 Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") on Wednesday, September 30, 2020 at 11:30 a.m. in compliance with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) (hereinafter collectively referred to as "Circulars"). Companies are allowed to hold AGMs through VC/OAVM without physical presence of Members at common venue. Hence the AGM of the Company is being held through VC/OAVM to transact the business as set forth in the Notice of the AGM.

In compliance with the Circulars, the Notice of the AGM and Annual Report 2019-20 will be sent by email to all those Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). These documents will also be available on the website of the Company at www.samaratforgings.com. Members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM and manner of participation, in remote e-voting or casting vote through e-voting during the AGM will be provided in the Notice of the AGM.

Notice is also given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 that the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 25th September, 2020 to 30th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of taking record of the shareholders.

Instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company has engaged the services of CDSL to provide e-voting facility to its Members to cast their vote by electronic means on the resolutions set out in Notice of the AGM. The remote e-voting system will also be made available at the AGM. The detailed instructions for remote e-voting / InstaPoll are given in the notice dated June 6, 2020 of the AGM.

Members are requested to note the following:

a. Members holding shares in physical form - please provide Folio No., Name of the Shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN, Self attested scanned copy of PAN Card, AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to sandeeptsharma@samaratforgings.com or to the RTA of the Company at info@masserv.com.

b. Members holding shares in demat form - please provide DPID & Client ID, Name, Client master or copy of the consolidated Account Statement, self attested copy of PAN Card, AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to sandeeptsharma@samaratforgings.com or to the email ID of the company at info@masserv.com.

INDIAN TONERS & DEVELOPERS LIMITED
 Regd.Off.: 10.5 KM Milestone , Rampur -Bareilly Road , Rampur- 244901
 CIN: L74993UP1990PLC015721
 Website: www.indiantoners.com, E-mail: info@indiantoners.com, Phone: 011-45017000

Extract of Unaudited Standalone &

शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कं. लि.
 कोर्पोरेट कार्यालय : 425, उद्योग विहार, फेज-IV, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा)
 दूरभाष : 0124-4212530/31/32, ई-मेल : customercare@shubham.co वेबसाइट : www.shubham.co

कच्चा सूचना (अचल सम्पत्तियों हेतु)
 जबकि अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 को वितीय आरितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शर्तियों के उपयोग में शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड (इसके पश्चात शुभम कहा जाएगा) का अधिकृत अधिकारी होने के नाते कर्जदार से कब्जा सूचना को प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का पुनर्मुमान करने के लिए कहते हुए एक मौजू सूचना निर्गत की थी।

अधिकांता द्वारा राशि के पुनर्मुमाना में असफल रहने के कारण विशेष रूप से अग्रकर्ताओं तथा जनसामान्य को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शर्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर कब्जा कर लिया है।

व्यक्तिगत रूप से अग्रकर्ता तथा जमानती और जनसामान्य को एतद्द्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन निम्नलिखित राशि तथा उस पर व्याज के लिए शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड के अधिनियम का विषय होगा। प्रतिभूत आरितियों को छुड़ाने के सम्बन्ध में उपलब्ध समय-सीमा के लिए कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। विवरण निम्नवत् है -

क्र.सं.	अग्र सं./कर्जदार (एवं सहकर्जदार का नाम)	मौजू सूचना की राशि	मौजू सूचना की तिथि	प्रतिभूत आरित	प्रत्ययोजन की तिथि
1	OFBDD171000005008546; दीपक कुमार, विवाह	7,40,461/-	26-05-2020	खसरा नं.- 9/7/2/9/1, 12-13; 18/1, 18/2; 19/1, 19/2; इन्द्रसैली, तहसील-बल्लभगढ़, जिला : फरीदाबाद-121005, हरियाणा	20/08/2020
2	OFBDD171000005009488; रामकुमार, रेखा देवी, धर्मवीर	8,02,488/-	26-05-2020	प्लॉट नं.- 86; खसरा नं.- 56/14; 15; 16; 17; 24; 25/20/2; 21/1; आदर्श नगर, ग्राम कंचा गाँव का क्षेत्र, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद-121004, हरियाणा	20/08/2020
3	KHI-1504-037524; प्रभाकर रावेश-पुष्पा प्रभाकर	6,07,356/-	26-05-2020	सम्पत्ति नं.- 85; खसरा नं.- 29/1; ग्राम-नींदपुर, जिला गैंगाना बुध नगर (उ.प्र.)-203207	20/08/2020
4	SHB-1503-036177; उमला, ज्योति चौधरी	10,53,239/-	26-05-2020	प्लॉट नं. 59; खसरा नं. 938; भीम नगर कालोनी, गाँवियाबाद, परगना लोनी, तहसील एवं जिला-गाँवियाबाद उ.प्र.-201102	20/08/2020
5	OCGN180400005012182; रेखा देवी (हरियाण राज्य की विधिक उत्तराधिकारी), अजीत सिंह	18,38,855/-	25-02-2020	प्लॉट नं. 129/120; खसरा नं.- 146 किल्ला/खसरा नं.- 76; ग्राम मिलेरीबा, तहसील जिला-गुरुग्राम, हरियाणा-122001	20/08/2020

स्थान : गुरुग्राम तिथि : 25.08.2020 अधिकृत प्राधिकारी शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कम्पनी लि.

जालंधर मोटर एजेंसी (दिल्ली) लिमिटेड
 CIN: L35999HR1998PLC033943
पंजी. कार्यालय: 458-1/16, सोहना रोड, न्यू कोर्ट के सामने, गुरुग्राम- 122001, हरियाणा
फोन नं. 0124-3019210, फैक्स नं. 0124-4233868, वेबसाइट: www.jmaindia.com ई-मेल: info@jmaindia.com

कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एनसीए) ने अपने परिपत्र दिनांक 5 मई, 2020 के साथ पठित परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2020 एवं 13 अप्रैल, 2020 के माध्यम से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक के आयोजन की अनुमति दी है। इन परिपत्रों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 और सीई (सुविधान सचिव एवं प्रकटीकरण आख्यकताओं) विनियमावली, 2015 के संगत प्रावधानों के अनुसार हमें कंपनी की अगामी यात्रि 71वीं एजीएम 28 सितम्बर, 2020 को प्रातः 11.00 बजे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कथित परिपत्रों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जानी है जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। कंपनी अपने सभी सदस्यों को पूर्व अग्रसार के समान ई-वोटिंग और रिमोट ई-वोटिंग सुविधा भी उपलब्ध करा रही है।

यदि आपकी ई-मेल आईडी पहले से ही कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत है तो वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना और ई-वोटिंग के लिए लॉगइन विवरण आपके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजे जाएंगे। यदि आपकी ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत नहीं है तो कृपया वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और ई-वोटिंग के लिए लॉगइन विवरण प्राप्त करने के लिए अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत कराने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें।

वार्षिक वारिता	फोलियो नम्बर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे) की स्कैन की गई कॉपी, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई कॉपी, आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई कॉपी) उपलब्ध कराते हुए ई-मेल पता पंजीकृत कराने के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के पास अर्थात् एनएसए सर्विसेज लिमिटेड info@masserv.com पर हस्ताक्षरित अनुवेदन भेजें।
कृपया अपना बैंक विवरण वास्तविक बैंक बिल किये गये बैंक के साथ, यदि पहले पंजीकृत नहीं कराया है तो, फोलियो नं., निर्णित करते हुए पत्र के साथ आरटीए अर्थात् एनएसए सर्विसेज लिमिटेड टी-34, दूसरी मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020 में भेजें।	कृपया इसे 04.09.2020 तक या उससे पूर्व पंजीकृत/अपडेट कराएं।
कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा दी गई सलाह एवं प्रक्रिया के अनुसार अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराएं।	यदि कंपनी द्वारा घोषित हो जाता है तो, कृपया एनएसएएच द्वारा लाभांश मुगतान के लिए अपने डीपी के पास अपना बैंक विवरण अपडेट कराएं।
कृपया इसे 04.09.2020 तक या उससे पूर्व पंजीकृत/अपडेट कराएं।	

एजीएम की सूचना और वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की वेबसाइट www.jmaindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के प्रयोजन हेतु की जाएगी।

कृते जालंधर मोटर एजेंसी (दिल्ली) लिमिटेड
 हस्ता./-
रामकेश पाल
कंपनी सचिव
 स्थान: गुरुग्राम तिथि: 25.08.2020

UFLEX यूफ्लैक्स लिमिटेड
 'A part of your daily life'
 CIN: L74899DL1988PLC032166
पंजी. कार्यालय: 305, तीसरी मंजिल, भनोट कॉर्नर, पंपोश एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश- I, नई दिल्ली - 110 048, फोन: +91-11-26440917, 26440925, फैक्स: +91-11-26216922
 वेबसाइट : www.uflexltd.com, ईमेल : secretarial@uflexltd.com

कंपनी के शेयरधारकों के ध्यान हेतु सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी को इकतीस वार्षिक सामान्य बैठक ('एजीएम') कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('एनसीए') के द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और सेबी (सामूहिक रूप से 'संबंधित परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और अन्य लागू परिपत्रों के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ('सेबी') (आपत्तियों के सूचीकरण एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 तथा कंपनी एक्ट, 2013 और इसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी लागू प्रावधानों की अनुपालना में एजीएम को आमंत्रित करने वाली सूचना में निर्धारित व्यापार को पूरा करने के लिए संबंधित कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विडियो मीडिया ('ओएवीएम') के माध्यम से वीडियो, 17 सितंबर, 2020 को सुबह 11.00 बजे आयोजित की जाएगी। सदस्यों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने के लिए सक्षम होना होगा।

संबंधित परिपत्रों की अनुपालना में, एजीएम सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रेटर्डएलोन और कंसोलिडेटेड वित्तीय सारांश के साथ बोर्ड की रिपोर्ट, ऑडिटरों की रिपोर्ट और उससे जुड़े अपेक्षित अन्य दस्तावेजों को कंपनी के सदस्यों को 24 अगस्त, 2020 भेज दी गई है, जिनके ई-मेल कंपनी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं। उपरकथित दस्तावेजों कंपनी की वेबसाइट www.uflexltd.com और शेयर बाजार की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर उपलब्ध है।

एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के लिए निर्देश:

कंपनीज (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमों, 2014 तथा समय-समय पर संशोधित के नियम 20 तथा सेबी (आपत्तियों के सूचीकरण एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के साथ पठित कंपनी एक्ट, 2013 की धारा 108 के अनुसार, कंपनी इलेक्ट्रॉनिक विधि ('ई-वोटिंग') द्वारा एजीएम में प्रारित किए जाने वाले प्रस्तावित प्रस्ताव पर उनके वोट के अधिकार का प्रयोग करने के लिए इसके सदस्यों को सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (CDSL) की सेवाओं को नियुक्त किया है। सदस्य यहां नीचे वर्णित स्थितियों को सीडीएसएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के प्रयोग द्वारा रिमोटली अपने वोट डाल सकते हैं। ('रिमोट ई-वोटिंग') इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग के लिए सुविधा एजीएम के स्थान पर भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में उपस्थित सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट का प्रयोग नहीं किया है वह एजीएम में अपने वोट का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (CDSL) 31वीं एजीएम के दौरान वीसी/ओएवीएम सुविधा तथा ई-वोटिंग के माध्यम से 31वीं एजीएम में भाग लेने के लिए रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग के लिए सुविधा प्रदान करेगी।

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक वर्ष 2019-20 के लिए लाभांश के शेयरधारकों को हकदारी निर्धारित करने और एजीएम के उद्देश्य के लिए 11 सितंबर, 2020 के 17 सितंबर, 2020 (दोनों दिनों को मिलाकर) बंद रहेगी।

- सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
- (क) एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यापार को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान द्वारा पूरा किया जा सकता है;
 - (ख) रिमोट ई-वोटिंग के प्रारंभ होने की तिथि और समय सोमवार, 14 सितंबर, 2020, सुबह 9.00 बजे।
 - (ग) रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति की तारीख और समय बुधवार, 16 सितंबर, 2020, शाम 5.00 बजे।
 - (घ) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से या एजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि: वीरवार, 10 सितंबर, 2020 है। सदस्यों के मतदान के अधिकार कट-ऑफ तिथि के अनुसार उनकी डिस्टेंसदारी के अनुपात में होंगे;
 - (ङ) कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर अर्जित करता है और एजीएम के नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ की तारीख यानी 10 सितंबर 2020 को शेयरधारक है, वह एजीएम की सूचना में प्रदान किए अनुसार लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड जनरेट करने की प्रक्रिया का अनुसरण कर सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति पहले से ही ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है, तो मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है;
 - (च) सदस्य वोट कर सकते हैं -
 - (i) 16 सितंबर, 2020, शाम 5.00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं जाएगी।
 - (ii) मतदान के लिए सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग नहीं डाला है, वे बैठक में अपने वोट के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं।
 - (iii) एक सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी सामान्य बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन बैठक में फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी; तथा
 - (iv) एक व्यक्ति जिसका नाम केवल कट-ऑफ तारीख तक डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में या सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, वह वार्षिक सामान्य बैठक में ई-वोटिंग के साथ-साथ मतदान के लिए भी सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा;
 - (छ) कंपनी और उस एजेंसी का वेबसाइट का पता जहाँ बैठक की सूचना प्रदर्शित की गई है: www.uflexltd.com और www.evotingindia.com;
 - (ज) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान के लिए सुविधा से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम, पदनाम, पता, ईमेल आईडी और फोन नंबर:

श्री कपिल कुमार, उपा-महाप्रबंधक (सचिवालय), ई-मेल: secretarial@uflexltd.com, टेलीफोन नंबर: 011-26440917, 011-26440925, पता: 305, तीसरी मंजिल, भनोट कॉर्नर, पंपोश एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश- I, नई दिल्ली- 110048

बोर्ड के आदेशानुसार कृते युफ्लैक्स लिमिटेड हस्ता./- (अजय कृष्णा) वरिष्ठ उपाध्यक्ष (कानूनी) और कंपनी सचिव एसीएम नं. 3296 स्थान: नई दिल्ली तिथि: 25.08.2020 पता: सी-001, कृष्णा अपरा रजिडेंसी, ई-8, सैक्टर-61, नोएडा-201301 (उ. प्र.)

ACE
एकशन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड
 सीआईएन : L74899HR1995PLC035860
 पंजी. कार्यालय : पुणेला तिक रोड, पुणेला, जिला पलवल-121102, हरियाणा
 फोन : +91-1275-280111 (90 लाइन्स), फैक्स : +91-1275-280133
 ई-मेल: cs@ace-cranes.com, वेबसाइट: www.ace-cranes.com
 शेयरधारकों के लिये सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि:

- एकशन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड ('कम्पनी') के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) (सुविधान सचिव तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एनसीए) तथा सेबी द्वारा जारी साधारण सन्वूलन नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020, साधारण सन्वूलन नं. 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020 तथा साधारण सन्वूलन नं. 20/2020 तिथि 5 मई, 2020 तथा लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अनुपालन में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विडियो मीडिया माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा सुधार, 24 सितम्बर, 2020 को 11.30 बजे पूर्व में 26वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में वर्णित साधारण तथा विशेष व्यवसायों को निष्पत्ति किया जाएगा।

- वार्षिक साधारण सभा की सूचना तथा वित्त वर्ष 2019-20 के लिये कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति केवल उन्हीं सदस्यों को ही भेजी जायेगी जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं। वे प्रस्तावक कंपनी की वेबसाइट www.ace-cranes.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम की सूचना सीडीएसएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली उपलब्ध कराने के लिये एजेंसी) को वेबसाइट अर्थात् www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगी।
- जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किये हैं, से अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में धारित शेयरों के मामले में उसे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के माध्यम से डिपॉजिटरी के पास तथा भौतिक पद्धति में धारित शेयरों के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट, कैपिन टेक्नोलॉजी प्रॉवैड लिमिटेड, सेलेनियम, प्लांट नं. 31 एवं 32, गांधीबावली, फाइनिशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032 के पास पंजीकृत कराएं। सदस्यगण यह ध्यान रखें कि एनएसए द्वारा जारी साधारण सन्वूलन नं. 20/2020 तिथि 5 मई, 2020 के अनुसार कम्पनी ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से कम्पनी का वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक साधारण सभा की सूचना (ई-वोटिंग निर्देशों सहित) प्राप्त करने के समित उद्देश्य के लिये एक प्रक्रिया सभ्य की है तथा सदस्यगण cs@ace-cranes.com पर अपना ईमेल पता अस्थाई रूप से भेज सकते हैं।

- ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने की प्रक्रिया
 - क) सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर मतदान करने का एक अवसर होगा।
 - ख) डीमैट/रिजिस्ट्रार पद्धति, भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों तथा ऐसे सदस्यों जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किये हैं, के लिये दूरवर्ती मतदान ('रिमोट ई-वोटिंग') की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है।
 - ङ) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जायेगी तथा एजीएम में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य एजीएम में मतदान करने में सक्षम होंगे जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किये हैं।
 - च) ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने के लिये लॉगिन क्रेडेंशियल्स ई-मेल द्वारा सदस्यों को उपलब्ध कराये जायेंगे। जिन सदस्यों को ई-मेल प्राप्त नहीं हो अथवा जिनके ईमेल आईडी कम्पनी के लिन टेक्नोलॉजी प्रॉवैड लिमिटेड/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत नहीं हो, वे एजीएम की सूचना में दिये गये निर्देशों का पालन कर लॉगिन क्रेडेंशियल्स बना सकते हैं।
- सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी टिप्पणियों तथा विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने के तरीके के विवरणों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।

एकशन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड के लिये हस्ता./- अनिल कुमार कम्पनी सचिव तिथि: 25 अगस्त, 2020 स्थान: पलवल

जालंधर ऑटो सेल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 CIN: U34101DL1959PLC003066
पंजी. कार्यालय: 2748, मिर्जा उमराव स्ट्रीट, मिर्जा सिनेमा के पीछे, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006
फोन नं. 011-23913932, ई-मेल: jmaindialegal@jmaindia.com

72वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि जालंधर ऑटो सेल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को 72वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') बुधवार, 16 सितम्बर, 2020 को प्रातः 11.30 बजे एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पत्ति के लिए विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। बैठक की सूचना, 31 मई, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट और रिमोट ई-वोटिंग विवरण उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दिये गये हैं जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। ई-मेल के माध्यम से शेयरधारकों को सूचना भेजने का कार्य 25 अगस्त, 2020 को समाप्त हो चुका है।

यदि आपकी ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं है तो कृपया वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और ई-वोटिंग के लिए लॉगइन विवरण प्राप्त करने के लिए अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत कराने हेतु निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें।

वार्षिक वारिता	फोलियो नम्बर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे) की स्कैन की गई कॉपी, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई कॉपी, आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई कॉपी) उपलब्ध कराते हुए ई-मेल पता पंजीकृत कराने के लिए कंपनी के पास jmaindialegal@jmaindia.com पर हस्ताक्षरित अनुवेदन भेजें।
कृपया अपना बैंक विवरण वास्तविक बैंक बिल किये गये बैंक के साथ, यदि पहले पंजीकृत नहीं कराया है तो, फोलियो नं., निर्णित करते हुए पत्र के साथ कंपनी के कार्यालय 2748, मिर्जा उमराव स्ट्रीट, मिन्वा सिनेमा के पीछे, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006 में भेजें।	कृपया इसे 09.09.2020 तक या उससे पूर्व पंजीकृत/अपडेट कराएं।
कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा दी गई सलाह एवं प्रक्रिया के अनुसार अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराएं।	यदि कंपनी द्वारा घोषित हो जाता है तो, कृपया एनएसएएच द्वारा लाभांश मुगतान के लिए अपने डीपी के पास अपना बैंक विवरण अपडेट कराएं।
कृपया इसे 09.09.2020 तक या उससे पूर्व पंजीकृत/अपडेट कराएं।	

एजीएम की सूचना और वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी उपलब्ध है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के प्रयोजन हेतु की जाएगी।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014, समय-समय पर यथासंशोधित के अनुपालन में कंपनी ने अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देने में सदस्यों को सक्षम बनाने के लिए एवोटिंग www.evotingindia.com के माध्यम से सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (डिपॉजिटरी) द्वारा सभी व्यवसाय के लेनदेन के लिए ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है। रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 13 सितम्बर, 2020 (प्रातः 9.00 बजे) प्रारंभ होगी और मंगलवार, 15 सितम्बर, 2020 (सय 5.00 बजे) समाप्त होगी। कथित तिथि एवं समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्यगण जिनके पास कट-ऑफ तिथि 9 सितम्बर, 2020 को या तो भौतिक प्रारूप या डिमैट/रिजिस्ट्रार प्रारूप में शेयर हैं, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के साथ अधिग्रहित करता है और सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि 9 सितम्बर, 2020 को शेयर धारण करता है, वह jmaindialegal@jmaindia.com पर अनुरोध कर अपना लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, जो सदस्य पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पंजीकृत हैं, वह अपना वोट देने के लिए अपने वर्तमान यूपर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल डाटा लिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट देने के बाद उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने की सुविधा उपलब्ध होगी और ऐसे सदस्यगण जिन्होंने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है, वह एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन उन्हें दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी। ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए श्री विजय के. सिंघल, पेशेवर कंपनी सचिव (सदस्यता सं. 21089 एवं सीपी नं. 10385), मालिक मैसर्स विजय के. सिंघल एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को समीक्षक नियुक्त किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग के लिए विवरण प्रक्रिया एजीएम के सूचना के साथ भेजे जाने वाले पत्र में है। ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी पूछताछ/शिकायत के लिए श्री विरट सांघी, निदेशक, जालंधर ऑटो सेल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 2748, मिर्जा उमराव स्ट्रीट, मिन्वा सिनेमा के पीछे, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006, फोन: 011-23913932, ई-मेल: jmaindialegal@jmaindia.com से संपर्क कर सकते हैं। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के अनुसार हमें वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के रिफार्ड को लेने और क. 5/- प्रत्येक के इक्विटी शेयरों पर लाभांश/क. 5 प्रति शेयर (अर्थात् 100 प्रतिशत), यदि वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाता है, के मुगतान के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण बुक न्युडरियतियार, 10 सितम्बर, 2020 से सुबह, 16 सितम्बर, 2020 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे। सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वित्त वर्ष 9-बजे का पम्पाइसीटीआर कोड (या तो बैंक खाता सं. या 9-बजे का पम्पाइसीटीआर कोड या दोनों), यदि कंपनी या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों, जैसा भी मामला हो, के पास अपडेट नहीं है तो इसे तुरंत अपडेट कराएं।

कृते जालंधर ऑटो सेल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 हस्ता./-
विरट सांघी
निदेशक
 स्थान: दिल्ली तिथि: 25.08.2020

reflex REFEX INDUSTRIES LIMITED

Reflex Industries Limited was incorporated as a private limited company under the Companies Act, 1956 in the name of 'Reflex Refrigerants Private Limited' vide a certificate of incorporation dated September 13, 2002 issued by the Registrar of Companies, Tamil Nadu at Chennai ('RoC'). Thereafter, our Company was converted into a public limited company and the name of our Company changed to 'Reflex Refrigerants Limited' and a fresh certificate of incorporation was issued by the RoC on March 30, 2006. Subsequently, the name of our Company was changed to 'Reflex Industries Limited' and a fresh certificate of incorporation was issued by the RoC on November 22, 2013. For further details, please see "History and Corporate Structure" on page 49 of the Letter of Offer.

Registered and Corporate Office: 11th Floor, Bascon Futura IT Park, New No. 10/2, Old No. 56L Venkat Narayana Road, T Nagar, Chennai 600 017, Tamil Nadu
Contact Person: S. Gopalakrishnan, Company Secretary & Compliance Officer; **Telephone:** +91 44 4340 5950; **E-mail:** admin@reflex.co.in; **Website:** www.reflex.co.in
Corporate Identification Number: L45200TN2002PLC049601

OUR PROMOTERS: MR. ANIL JAIN, MR. TARACHAND JAIN AND M/S SHERISHA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

ISSUE OF 55,26,848 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 45/- (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 35/-) PER EQUITY SHARE ("RIGHTS EQUITY SHARES")